



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 12, 2002/चैत्र 22, 1924

No. 173]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 2002/CHAITRA 22, 1924

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2002

सा. का. नि. 278(अ).—सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (1925 का पंजाब अधिनियम 8) की धारा 146 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सिख गुरुद्वारा बोर्ड निर्वाचन नियम, 1959 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम सिख गुरुद्वारा बोर्ड निर्वाचन (संशोधन) नियम 2002 कहलाएंगे।  
(2) यह नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. सिख गुरुद्वारा बोर्ड निर्वाचन नियम, 1959 ( जिन्हें इसके पश्चात उक्त नियमों कहा जाएगा) के नियम 2 में -  
(i) खंड (छ) में, "अनुसूचित जाति " शब्दों के पश्चात "अथवा महिलाओं के लिए " शब्द जोड़े जाएंगे।  
(ii) खंड (ज) में, "अनुसूचित जाति" शब्दों के पश्चात "अथवा महिलाओं के लिए" शब्द जोड़े जाएंगे।
3. उक्त नियमों के नियम 13 के परन्तुक में शब्द "तीस दिनों के स्थान पर " शब्द "बीस दिन" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 15 के उप नियम (2) में शब्द "आरक्षित सीट" के स्थान पर "अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित सीट" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 16 में, -

(क) उपनियम (1) में, -

(i) शब्द "एक सौ रुपयों" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे, और

(ii) शब्द "पचास रुपयों" के स्थान पर शब्द "पाँच सौ रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उपनियम (5), में जहाँ कहीं "डाले गए कुल मतों का आठवां भाग" शब्दों के स्थान पर "डाले गए कुल वैध मतों का छठा भाग" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

6. उक्त नियमों में, नियम 20, में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(1) कोई भी उम्मीदवार प्रपत्र IV-क में सूचना देकर अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है। यह प्रपत्र उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा उसके एजेंट के द्वारा नियम 13 में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व अपराह्न में 3 बजे से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को सौंप दिया जाना चाहिए तथा रिटर्निंग अधिकारी इस प्रकार की वापसी के संबंध में प्रपत्र 4-ख में एक नोटिस प्रकाशित करेगा तथा किसी भी व्यक्ति को, जिसने अपनी उम्मीदवारी वापस ली हो, उसी चुनाव के लिए उसकी वापसी को रद्द करने अथवा पुनर्नामांकित होने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।"

7. उक्त नियमों में नियम 25 के पश्चात निम्नलिखित नया नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा यथा:-

"25-क चुनाव एजेंटों की नियुक्ति.- (1) चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार प्रपत्र IV-ग में किसी व्यक्ति को अपने चुनाव एजेंट के रूप में नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रकार की नियुक्ति की सूचना उस प्रपत्र को दो प्रतियों में अग्रेषित करके रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी जो उसकी एक प्रति उस पर नियुक्ति संबंधी अपनी अनुमोदन के रूप में अपनी मोहर एवं हस्ताक्षर करके चुनाव एजेंट को लौटाएगा।

(2) उपनियम (1) के तहत चुनाव एजेंट की नियुक्ति का प्रतिसंहरण प्रपत्र 4-घ में किया जाएगा तथा उसे पीठासीन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इसप्रकार के किसी प्रतिसंहरण के मामले में उम्मीदवार उस एजेंट के स्थान पर कोई नया एजेंट नियुक्त कर सकता है।

25-ख पोलिंग एजेंट की नियुक्ति.- (1) चुनाव लड़ने वाला कोई उम्मीदवार प्रपत्र-IV-ड में किसी व्यक्ति को अपना पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है तथा वह प्रपत्र पोलिंग एजेंट को सौंपा जाएगा जो उसे मतदान केन्द्र पर दिखाएगा।

- (2) जब तक पोलिंग एजेंट अपने नियुक्ति दस्तावेज में दी गई घोषणा को पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित करने के बाद उप नियम (1) के तहत की गई अपनी नियुक्ति का दस्तावेज पीठासीन अधिकारी को नहीं सौंपता तब तक किसी पोलिंग एजेंट को मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा ।
- (3) उप नियम (1) के तहत की गई किसी पोलिंग एजेंट की नियुक्ति का प्रतिसंहरण प्रपत्र IV-च में किया जाएगा तथा इसे पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इस प्रकार के किसी प्रतिसंहरण की अवस्था में उम्मीदवार इसके स्थान पर किसी नए पोलिंग एजेंट की नियुक्ति कर सकता है ।
8. उक्त नियमों में, नियम 33 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा:-
- "33 मतपत्र का प्रारूप.-(1) प्रत्येक मतपत्र के साथ एक प्रतिपत्रक (काउंटर फॉइल) संलग्न होगा तथा मतपत्र और काउंटर फॉइल का प्रारूप तथा उसमें दिए गए विवरण की भाषा या भाषाएं इस प्रकार की होंगी जैसाकि गुरुद्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त निर्देश दें ।
- (2) मतपत्र में उम्मीदवारों के नाम उसी क्रम में होंगे जिस क्रम में वे नियम 22 के तहत तैयार की गई वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की सूची में दिए गए हों ।
- (3) यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों का एक ही नाम हो तो उनमें अन्तर उनके व्यवसाय अथवा निवास या गुरुद्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा यथानिर्देशित कोई अन्य नाम जोड़ कर किया जाएगा ।
9. उक्त नियमों के नियम 37 में,-
- (i) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-
- "(2) मतदाता का नाम पुकारे जाने पर, मतदाता, मत पत्रों के प्रभारी मतदान अधिकारी के पास जाएगा जो उस मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही से चिह्न लगाएगा और इसके पश्चात मत पत्र या अपेक्षित संख्या में मत पत्रों को मतदाता को सौंपेगा :
- परंतु यह कि मत पत्र या पत्रों को सुपुर्द कर देने से पहले मतदान प्रभारी अधिकारी जहां कहीं नियम 27 के उपनियम (1) के तहत इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं , वहां मत पत्र या पत्रों या जैसा भी मामला हो, नियम के तहत विनिर्दिष्ट सरकारी चिह्न की मोहर लगाएगा।

- (3) मतदाता ने मत पत्र या पत्रों को देते समय मतदान प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा-
- (क) मतदाता सूची के प्रतिपत्रक पर चिह्नित प्रति में यथा प्रविष्ट मतदाता का क्रमांक दर्ज करेगा ;
  - (ख) उक्त प्रतिपत्रक पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप प्राप्त करेगा;
  - (ग) मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में मतदाता के नाम को चिह्नित करेगा जिसमें यह दिखाया गया हो कि उसे मत पत्र उसे दे दिया गया है तथा उस मतदाता को दिए गए मतपत्र की क्रम संख्या को उसमें दर्ज नहीं किया जाएगा ।

परन्तु किसी मतदाता को कोई मत पत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जबतक कि मत पत्र के प्रतिपत्रक पर उसके हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप प्राप्त नहीं कर ली जाती ।

- (4) उप-नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी पीठासीन अधिकारी या चुनाव अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह प्रतिपत्रक पर मतदाता के हस्ताक्षरों या अंगूठे की छाप को, जैसे भी मामला हो, सत्यापित करे ।
  - (5) मतदान केन्द्र पर कोई भी व्यक्ति किसी मतदाता विशेष को दिए गए मत पत्र या पत्रों की क्रम संख्या को नोट नहीं करेगा.;"
  - (ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित उप नियम (2) के पश्चात उप-नियम (3) को उप-नियम (6) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।
10. उक्त नियमों में नियम 43 में "रद्द के रूप में चिह्नित " शब्दों के स्थान पर "नष्ट के रूप में चिह्नित:रद्द" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
11. उक्त नियमों में नियम 50 को नियम 50-घ कहा जाएगा और इस प्रकार क्रमांक दिये गये नियम -50घ से पहले निम्नलिखित नए नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
- "50. मतों की गणना करने का कार्यक्रम - (1) मुख्य आयुक्त गुरुद्वारा चुनाव इस बारे में निर्देश दे सकता है कि क्या मतदान समाप्त होने के पश्चात मतदान केन्द्र में ही मतों की गणना की जाए या किसी अन्य तारीख, समय और स्थान पर यह की जाए ।

- (2) चुनाव अधिकारी जैसे वह आवश्यक समझें चुनाव-क्षेत्र वार व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा जिन्हें गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक के रूप में जाना जाएगा और वे मतों की गणना करने में सहायता करेंगे।
- (3) यदि मतगणना मतदान केन्द्र को छोड़ कर किसी अन्य स्थान पर की जानी है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा मत पेटियों और चुनाव संबंधी कागजातों को इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार और मुख्य आयुक्त गुरुद्वारा चुनाव के और निर्देशों के अनुसार सील बन्द किया जाएगा तथा चुनाव अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित स्थान पर उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा किया जाएगा।
- (4) जब मत गणना रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जानी हो तो नियम 50, 51 और 52 में किये गये पीठासीन अधिकारी के उल्लेख को रिटर्निंग अधिकारी का उल्लेख समझा जायेगा।

50-क मतगणना के समय एवं स्थान की सूचना:- जब मतगणना रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जानी हो तो वह मतदान की तारीख या प्रथम तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व मतगणना के स्थान, समय एवं तारीख का निर्धारण करेगा तथा प्रत्येक उम्मीदवार या उसके मतदान अभिकर्ता को इसकी लिखित सूचना देगा।

परंतु यदि किसी कारणवश रिटर्निंग अधिकारी आवश्यक एवं तात्कालिक समझता है तो वह निर्धारित तारीख, समय एवं स्थान को बदल सकता है तथा ऐसा करते समय वह प्रत्येक उम्मीदवार या उसके मतदान अभिकर्ता को उसकी लिखित सूचना देगा।

50-ख मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना और उसे निरसित करना :-

- (1) गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी किये जा सकने वाले सामान्य या विशेष निर्देशों के अध्याधीन प्रत्येक प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवार प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक मतगणना अभिकर्ता, मतगणना के मतदान केन्द्र से भिन्न स्थान पर होने की स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी की मेज के लिए एक मतगणना अभिकर्ता और जिन मेजों पर मतगणना होनी है उनमें से प्रत्येक मेज के लिए एक मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति करेगा।
- (2) ऐसी प्रत्येक नियुक्ति प्रपत्र VIII-क में दो प्रतियों में की जाएगी जिनमें से एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी और दूसरी प्रति मतगणना स्थल पर प्रस्तुतीकरण हेतु मतगणना अभिकर्ता को दी जाएगी।

- (3) किसी भी मतगणना अभिकर्ता को तब तक मतगणना के लिए निर्धारित स्थान पर जाने की अनुमति नहीं होगी जब तक वह पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को अपने नियुक्ति पत्र की प्रति, उसमें दी गई घोषणा को भरकर और उस पर हस्ताक्षर करके, नहीं देता और रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी से निर्धारित मतगणना स्थल में प्रवेश का अधिकार पत्र प्राप्त नहीं करता ।
- (4) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को प्रपत्र VIII-ख भरकर और उसे रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत करके रद्द किया जा सकता है और इस प्रकार नियुक्ति रद्द किये जाने की स्थिति में उम्मीदवार उसके स्थान पर नयी नियुक्ति कर सकता है ।

50-ग निर्धारित मतगणना स्थल में प्रवेश:- (1) रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों को निर्धारित मतगणना स्थल से बाहर निकालेंगे:

- (क) वे व्यक्ति जिन्हें वह मतगणना में अपनी मदद के लिए नियुक्त करे (जिन्हें मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक कहा जाएगा);
  - (ख) मुख्य आयुक्त, गुरुद्वारा चुनाव या आयुक्त, गुरुद्वारा चुनाव;
  - (ग) चुनाव ड्यूटी पर लगे सरकारी कर्मचारी; और
  - (घ) उम्मीदवार, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और मतगणना अभिकर्ता ।
- (2) उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जायेगा जो चुनाव में या चुनाव के सम्बन्ध में किसी उम्मीदवार द्वारा नियोजित किया गया है या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए कार्यरत रहा हो ।
  - (3) रिटर्निंग आफीसर अथवा पीठासीन अधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस बात का निर्णय करेगा कि कौन सा मतगणना अभिकर्ता किसी विशेष मतगणना टेबल या ग्रुप की मतगणना टेबल पर गणना की निगरानी करेगा ।
  - (4) जहां पर रिटर्निंग आफीसर द्वारा या ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अथवा रिटर्निंग आफीसर की ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मतों की गिनती का कार्य किया जा रहा है, तो ऐसे स्थान पर यदि कोई व्यक्ति मतों की गणना के दौरान स्वयं दुराचरण करता है

अथवा रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन अधिकारी के विधिसम्मत निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसे उस स्थान से हटा दिया जाएगा ।

12. उपरोक्त नियमों में, नियम 50-घ में, मार्जिनल हैडिंग के स्थान पर निम्नलिखित मार्जिनल हैडिंग प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

**" मतों की गिनती "**

13. उपरोक्त नियमों में, प्रपत्र IV के पश्चात निम्नलिखित नए प्रपत्र जोड़े जाएंगे अर्थात्:-

प्रपत्र IV-क

(नियम 20(1) देखें )

उम्मीदवार द्वारा दिया जाने वाला उम्मीदवारी वापसी संबंधी नोटिस ।

सिख गुरुद्वारा बोर्ड के चुनाव

रिटर्निंग अधिकारी

मैं \_\_\_\_\_ ( उपरोक्त चुनाव में वैध रूप से नामित उम्मीदवार ) एतद्द्वारा यह नोटिस देता हूँ कि मैं अपनी उम्मीदवारी वापिस लेता हूँ ।

स्थान \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

हस्ता० (वैध रूप से नामित उम्मीदवार)

यह नोटिस मुझे मेरे कार्यालय में श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ (नाम) द्वारा दिनांक \_\_\_\_\_ को \_\_\_\_\_ बजे दिया गया था ।

दिनांक \_\_\_\_\_

रिटर्निंग अधिकारी

वापसी के नोटिस की पावती  
( नोटिस देने वाले व्यक्ति को सुपुर्दगी के लिए )

सिख गुरुद्वारा बोर्ड के चुनाव में श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ (वैध रूप से नामित उम्मीदवार) द्वारा उम्मीदवारी वापसी संबंधी नोटिस मुझे \_\_\_\_\_ (तारीख) को \_\_\_\_\_ (बजे) मेरे कार्यालय पर \_\_\_\_\_ द्वारा दिया गया ।

रिटर्निंग अधिकारी

## प्रपत्र IV-ख

(नियम 20 (1) देखें)

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला उम्मीदवारी वापसी संबंधी नोटिस  
सिख गुरुद्वारा बोर्ड के चुनाव

एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उपरोक्त चुनाव में वैध-रूप से नामित निम्नलिखित उम्मीदवार आज अपनी उम्मीदवारी वापिस लेते हैं।

नाम (वैध रूप से नामित उम्मीदवार)	पता(वैध रूप से नामित उम्मीदवार)	टिप्पणी
1.		
2.		
3.		
इत्यादि		

दिनांक \_\_\_\_\_

रिटर्निंग अधिकारी

## प्रपत्र IV-ग

(नियम 25-क (1) देखें)

चुनाव एजेंट की नियुक्ति

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी,

\_\_\_\_\_

मैं \_\_\_\_\_ सुपुत्र श्री \_\_\_\_\_, जो बोर्ड  
की सदस्यता के चुनाव में एक उम्मीदवार हूँ, एतद्वारा श्री \_\_\_\_\_ सुपुत्र  
श्री \_\_\_\_\_ को उपरोक्त चुनाव में आज से अपना चुनाव एजेंट नियुक्त  
करता हूँ।

स्थान \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

उम्मीदवार के हस्ताक्षर



## प्रपत्र IV-ब

(नियम 25-क (2) देखें )

चुनाव एजेंट की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

सेवा में,  
रिटनिंग अधिकारी,

मैं \_\_\_\_\_ सुपुत्रश्री \_\_\_\_\_ बोर्ड की सदस्यता  
के चुनाव में एक उम्मीदवार हूँ तथा मैं एतद्वारा अपने चुनाव एजेंट के रूप में  
श्री \_\_\_\_\_ सुपुत्र श्री \_\_\_\_\_ निवासी  
\_\_\_\_\_ की नियुक्ति का प्रतिसंहरण करता हूँ।

स्थान \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

## प्रपत्र -IV-ड.

(नियम 25-ख (1) देखें )

पोलिंग एजेंट की नियुक्ति

मैं \_\_\_\_\_ सुपुत्र श्री \_\_\_\_\_ निवासी  
\_\_\_\_\_ बोर्ड की सदस्यता के चुनाव का उम्मीदवार हूँ तथा मैं एतद्वारा पोलिंग स्टेशन  
संख्या \_\_\_\_\_ पर मतदान के लिए निर्धारित स्थान \_\_\_\_\_ पर  
मौजूद रहने के लिए श्री \_\_\_\_\_ (नाम एवं पता) को अपने पोलिंग  
एजेंट के रूप में नियुक्त करता हूँ।

स्थान \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मैं \_\_\_\_\_ सुपुत्रश्री \_\_\_\_\_  
निवासी \_\_\_\_\_ पोलिंग एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

पीठासीन अधिकारी के समक्ष पोलिंग एजेंट द्वारा हस्ताक्षर किया जाने वाला घोषणा पत्र

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उक्त चुनाव में सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 की धारा 151 जो मैंने पढ़ ली है /जो मुझे पढ़ के सुनाई गई है , द्वारा प्रतिबंधित कोई कार्य नहीं करूँगा ।

दिनांक\_\_\_\_\_

पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए

दिनांक\_\_\_\_\_

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र IV-च

( नियम 25-ख (3) देखें )

पोलिंग एजेंट की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

सेवा में,

पीठासीन अधिकारी,

मैं \_\_\_\_\_ सुपुत्र श्री \_\_\_\_\_ बोर्ड की  
सदस्यता के चुनाव में उम्मीदवार हूँ तथा मैं एतद्द्वारा अपने पोलिंग एजेंट के रूप में श्री \_\_\_\_\_  
की नियुक्ति का प्रतिसंहरण करता हूँ ।

स्थान \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

14. उक्त नियमों में प्रपत्र VIII के बाद निम्नलिखित नया प्रपत्र जोड़ा जाएगा अर्थात्

प्रपत्र VIII-क  
(नियम 50-ख (2) देखें )  
मतगणना एजेंट की नियुक्ति  
( सिख गुरुद्वारा बोर्ड का चुनाव )

सेवा में,  
रिटर्निंग अधिकारी,

मैं \_\_\_\_\_ सुपुत्र श्री \_\_\_\_\_ बोर्ड की  
सदस्यता के चुनाव में एक उम्मीदवार हूँ तथा मैं एतद्वारा मतों की गिनती के समय मौजूद रहने के लिए  
निम्नलिखित व्यक्तियों को अपने मतगणना एजेंट के रूप में नियुक्त करता हूँ ।

मतगणना एजेंट का नाम

एजेंट का पता

1.  
2.  
3.  
इत्यादि

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

हम मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं ।

1.  
2.  
3.  
इत्यादि

स्थान \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

मतगणना एजेंट के हस्ताक्षर

मैं \_\_\_\_\_ सुपुत्रश्री \_\_\_\_\_  
 निवासी \_\_\_\_\_ अपनी उक्त नियुक्ति को स्वीकार करता हूँ ।  
 स्थान \_\_\_\_\_  
 दिनांक \_\_\_\_\_ निर्वाचन एजेंट के हस्ताक्षर  
 अनुमोदित

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

मतगणना एजेंटों की घोषणा  
 ( रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित )

मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि उक्त चुनाव में हम ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा / करेंगे जो कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 की धारा 151, जिसे मैंने / हमने पढ़ लिया है / मुझे / हमें पढ़ कर सुना दिया गया है, में वर्जित है ।

1.

2.

3.

इत्यादि

दिनांक \_\_\_\_\_ मतगणना एजेंट (एजेंटों) के हस्ताक्षर  
 \_\_\_\_\_ के समक्ष हस्ताक्षर किए गए

सहायक रिटर्निंग अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी

प्रपत्र VIII-ख

( नियम 50-ख (4) देखें )

मतगणना एजेंट की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

सिख गुरुद्वारा बोर्ड का चुनाव

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी,

मैं \_\_\_\_\_ सुपुत्र श्री \_\_\_\_\_ बोर्ड  
 की सदस्यता के चुनाव में एक उम्मीदवार हूँ तथा मैं एतद्वारा अपने मतगणना एजेंटश्री \_\_\_\_\_  
 की नियुक्ति का प्रतिसंहरण करता हूँ ।

स्थान

दिनांक

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

पाद टिप्पणी :—मूल नियम 17 जुलाई, 1959 को पंजाब सरकार, गृह विभाग की अधिसूचना के तहत प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधित किया गया था :—

संख्या 63(अ) दिनांक 3.2.1978

संख्या 282(अ) दिनांक 26.7.1978

संख्या 382 (अ) दिनांक 26.7.1978

संख्या 476 (अ) दिनांक 28.9.1978

संख्या 302 (अ) दिनांक 30.3.1995

संख्या 384 (अ) दिनांक 9.5.1995

संख्या 379 (अ) दिनांक 23.8.1996

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2002

**G.S.R. 278(E).**— In exercise of the powers conferred by Section 146 of the Sikh Gurudwaras Act, 1925 (Punjab Act 8 of 1925), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sikh Gurudwara Board Election Rules, 1959, namely :—

1 (1) These rules may be called the Sikh Gurudwara Board Election (Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sikh Gurudwara Board Election Rules, 1959 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,—

- (i) in clause (g), after the words "Scheduled Caste" the words "or for women" shall be added; and
  - (ii) in clause (h), after the words "Scheduled Caste" the words "or for women" shall be added.
3. In the said rules, in rule 13, in the proviso for the words "thirty days", the words "twenty days" shall be substituted.
4. In the said rules, in rule 15, in sub-rule (2), for the words "reserved seat" the words "reserved seat for the members of the Scheduled Castes" shall be substituted
5. In the said rules, in rule 16,—
- (a) in sub rule (1),—
    - (i) for the words "one hundred rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted; and
    - (ii) for the words "rupees fifty", the words "five hundred rupees" shall be substituted.
  - (b) in sub-rule (5), for the words "one eighth of the total number of votes polled" wherever occur, the words "one-sixth of the total of the total number of valid votes polled" shall be substituted
6. In the said rules, in rule 20, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely —
- "(1) Any candidate may withdraw his candidature by notice in Form IV-A subscribed by him and delivered by him in person or by his agent to the Returning Officer before three O'clock in the afternoon on or before the date specified under rule 13 in this behalf and the Returning Officer shall publish a notice in Form IV-B in respect of such withdrawal and no person who has thus withdrawn his candidature shall be allowed to cancel his withdrawal or to be re-nominated as a candidate for the same election."
7. In the said rules, after rule 25, the following new rule shall be inserted, namely .—
- "25-A Appointment of election agents.—**(1) A contesting candidate may appoint in Form IV-C any person to be his election agent and notice of such appointment shall be given by forwarding the same in duplicate to the Returning Officer who shall return one copy thereof to the election agent after affixing thereon his seal and signature in token of his approval of the appointment
- (2) The revocation of the appointment of the election agent under rule sub-rule (1) shall be made in Form IV-D and shall be lodged with the Presiding Officer and the Returning Officer and in the case of any such revocation the candidate may make fresh appointment in his place
- 25-B Appointment of polling agent.—**(1) A contesting candidate may appoint in Form IV-E any person to be his polling agent and the same shall be handed over to the polling agent for production at the polling station.
- (2) No polling agent shall be admitted in the polling station unless he has delivered to the Presiding Officer the instrument of his appointment made under sub-rule (1) after duly signing before the Presiding Officer the declaration contained therein.
- (3) The revocation of the appointment of a polling agent made under sub-rule (1) shall be made in Form IV-F and shall be lodged with the Presiding Officer and in the event of any such revocation the candidate may make fresh appointment in his place".
8. In the said rules, for rule 33, the following rule shall be substituted, namely .—
- "33. Form of ballot papers.—**(1) Every ballot paper shall have a counterfoil attached thereto and the ballot paper and counterfoil shall be in such form and the particulars therein shall be in such language or languages as the Chief Commissioner Gurudwara Elections may direct.
- (2) The names of the candidates shall be arranged on the ballot paper in the same order in which they appear in the list of validly nominated candidates prepared under rule 22.
- (3) If two or more candidates bear the same name, they shall be distinguished by the addition of their occupation or residence or in any other manner as may be directed by the Chief Commissioner Gurdwara Elections."
9. In the said rules, in rule 37,—
- (i) for sub-rule (2), the following sub-rules shall be substituted. namely .—

- “(2) On the elector’s name being called out, the elector shall approach the Polling Officer-in-charge of the ballot papers who shall then cause the left fore-finger of the elector to be marked with indelible ink and shall thereafter deliver a ballot paper or the requisite number of ballot papers to the elector:

Provided that before delivering the ballot paper or papers the Polling Officer-in-charge, where a direction has been issued in this behalf under sub-rule (1) of rule 27, stamp the ballot paper or papers, as the case may be, with such official mark as may have been specified under that rule.

- (3) At the time of issuing a ballot paper or papers to an elector the Polling Officer-in-charge shall—

- (a) record on its counterfoil the electoral roll number of the elector as entered in the marked copy of the electoral roll;
- (b) obtain the signature or thumb impression of the elector on the said counterfoil; and
- (c) mark the name of the elector in the marked copy of the electoral roll to indicate that a ballot paper has been issued to him, without further recording therein the serial number of the ballot paper issued to that elector:

Provided that no ballot paper shall be delivered to an elector unless he has put his signature or thumb impression on the counterfoil of the ballot paper.

- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3) it would not be necessary for the Presiding Officer or the Polling Officer or any other officer to attest the signature or the thumb impression, as the case may be, of the elector on the counterfoil.
- (5) No person in the Polling Station shall note down the serial number of the ballot paper or papers issued to particular electors.”;
- (ii) after sub-rule (2) so substituted sub-rule (3) shall be renumbered as sub-rule (6).

10. In the said rules, in rule 43, for the words “marked as cancelled”, the words “marked as spoilt: cancelled” shall be substituted.

11. In the said rules, rule 50 shall be renumbered as rule 50-D and before rule 50-D so renumbered, the following new rules shall be inserted, namely :—

- “50. **Programme for counting of votes.**—(1) The Chief Commissioner Gurudwara Elections may direct as to whether the counting of votes is to be done at the polling station itself after the close of the poll or at a different date, time and place.
- (2) The Returning Officer will appoint constituency-wise number of persons as he may deem necessary to be known as Counting Supervisors and Counting Assistants to assist him in counting of votes.
- (3) Where the counting is to be done at a place other than the polling station the Presiding Officer will seal the ballot boxes and election papers in accordance with the provisions of these rules and as per further directions of the Chief Commissioner Gurudwara Elections and deposit the same at the place fixed for this purpose by the Returning Officer for safe custody.
- (4) Where the counting is to be done by the Returning Officer, reference to the Presiding Officer in rules 50, 51 and 52 shall be construed as a reference to the Returning Officer.
- 50-A **Intimation of time and place for counting of votes.**—Where the counting of votes is to be done by the Returning Officer, he shall, at least seven days before the date or the first of the dates, fixed for poll, appoint the place or places where counting of votes will be done and the date and time at which counting will be done and shall give notice of the same in writing to each candidate or his election agent :
- Provided that if for any reason the Returning Officer finds it necessary and expedient to do so, he may alter the date, time and place so fixed and inform by giving notice of the same to each candidate or his election agent.
- 50-B **Appointment of counting agents and revocation of such appointment.**—(1) Each contesting candidate shall, subject to such general or special direction as the Commissioner Gurudwara Election may issue in this behalf, appoint one Counting Agent, for each polling station, one Counting Agent for the table of the Returning Officer if counting is to take place at a different place from the polling station and one counting agent for each of the table on which counting of votes is to be done.

- (2) Every such appointment shall be made in Form VIII-A in duplicate, one copy of which shall be forwarded to the Returning Officer and the second shall be made over to the Counting Agent for production at the place of counting.
- (3) No Counting Agent shall be admitted into the place fixed for counting unless he has delivered to the returning Officer or the Presiding Officer, as the case may be, his copy of appointment letter after duly completing and signing the declaration contained therein and receiving from the Returning Officer or the Presiding Officer an authority for entry into the place fixed for counting.
- (4) The appointment of a Counting Agent can be revoked in Form VIII-B and lodged with the returning Officer or the Presiding Officer, as the case may be, and in the event of any such revocation, the candidate may make a fresh appointment in his place.
- 50-C Admission to the place fixed for counting.**—(1) The Returning Officer or the Presiding Officer, as the case may be, shall exclude from the place fixed for counting of votes all persons except,—
- such persons (to be known as Counting Supervisors and Counting Assistants) as he may appoint to assist him in counting;
  - persons authorised by the Chief Commissioner Gurudwara Elections or the Commissioner Gurudwara elections;
  - public servants on duty in connection with elections; and
  - candidates, their election agents and counting agents.
- (2) No person who has been employed by or on behalf of, or has been otherwise working for a candidate in or about the election, shall be appointed under clause (a) of sub-rule (1).
- (3) The Returning Officer or the Presiding Officer, as the case may be, shall decide which counting agent or agents shall watch the counting at any particular counting table or group of counting tables.
- (4) Any person who during the counting of votes misconducts himself or fails to obey the lawful directions of the Returning Officer or the Presiding Officer, may be removed from the place where the votes are being counted by the Returning Officer or by any Police Officer on duty or by any person authorised in this behalf by the Returning Officer.

12. In the said rules, in rule 50-D, for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely :—

“Counting of votes”

13. In the said rules, after Form IV, the following new Forms shall be added, namely :—

“FORM IV-A

[See rule 20 (1)]

Notice of Withdrawal of Candidature to be given by the candidate Election to the Sikh Gurdwara Board

The Returning Officer

I \_\_\_\_\_ a (candidate validly nominated the above election) do hereby give notice that I withdraw my candidature.

Place :

Date \_\_\_\_\_ Signature of (validly nominated candidate).

This notice was delivered to me at my office at \_\_\_\_\_ (hour) on \_\_\_\_\_ (date) by \_\_\_\_\_ (name) the \_\_\_\_\_

Date

Returning Officer.



**Receipt of Notice of Withdrawal**

(To be handed over to the person delivering the notice)

The notice of withdrawal of candidature by \_\_\_\_\_ a (validly nominated candidate) at the election to the **Sikh Gurdwaras Board** was delivered to me by the \_\_\_\_\_ at my office at \_\_\_\_\_ (hour) on \_\_\_\_\_ (date).

Returning Officer.

## FORM IV-B

[See rule 20 (I)]

**Notice of withdrawal of Candidature to be given by the Returning Officer****Election to the Sikh Gurdwara Board**

Notice is hereby given that the following validly nominated candidate/candidates at the above election withdraw his candidature/their candidatures today.

Name of (validly nominated candidate)	Address of (validly nominated candidate)	Remarks
1.		
2.		
3.		
etc.		

Dated \_\_\_\_\_

Returning Officer.

## FORM IV-C

[See rule 25-A (1)]

**Appointment of Election Agent**

To

The Returning Officer,

\_\_\_\_\_

I, \_\_\_\_\_ son of \_\_\_\_\_ a candidate at the election of the membership of the Board do hereby appoint \_\_\_\_\_ son of \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ as my election agent from this day at the above election.

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Signature of the Candidate.

122765/02 - 3

## FORM IV-D

[See Rule 25-A(2)]

**Revocation of appointment of Election Agent**

To

The Returning Officer,  
\_\_\_\_\_

I \_\_\_\_\_ son of \_\_\_\_\_ a candidate at the election of membership of the Board hereby revoke the appointment of Shri \_\_\_\_\_ son of \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ my election agent.

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Signature of the Candidate

## FORM IV-E

[See rule 25-B (1)]

**Appointment of Polling Agent**

I \_\_\_\_\_ son of \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ candidate at the election of membership of the Board do hereby appoint \_\_\_\_\_

(Name and address) \_\_\_\_\_ as a Polling Agent to attend Polling Station

No. \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_ place fixed for the poll at \_\_\_\_\_

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Signature of the Candidate.

I \_\_\_\_\_ son of \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ agree to act as such Polling Agent.

Declaration of the Polling Agent to be signed before the Presiding Officer.

I hereby declare that at the above election I will do anything forbidden by Section 151 of the Sikh Gurdwara Act, 1925, which I have read/has been read over to me.

Date \_\_\_\_\_

Signature of the Polling Agent.

Signed before me.

Date \_\_\_\_\_

Presiding Officer.

## FORM IV-F

[See rule 25—B (3)]

**Revocation of appointment of Polling Agent.**

To

The Presiding Officer,  
\_\_\_\_\_

I \_\_\_\_\_ son of \_\_\_\_\_ a candidate at the election for the membership of the Board hereby revoke the appointment of \_\_\_\_\_ my polling agent.

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Signature of the candidate

17. In the said rules, after Form VIII, the following new form shall be added, namely:—

FORM VIII-A

[See rule 50-B (2)]

**Appointment of Counting Agents**

**Election to the Sikh Gurdwara Board**

To

The Returning Officer,  
\_\_\_\_\_

I, \_\_\_\_\_ son of \_\_\_\_\_ a candidate at the election of membership of the Board, do hereby appoint the following persons as my counting agents to attend the counting of votes at \_\_\_\_\_

Name of the Counting Agent

Address of the Counting Agent

1.

2.

3.

etc.

We agree to act as such counting agents

Signature of candidate

1.

2.

3.

etc.

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Signature (s) of Counting Agent

I, \_\_\_\_\_ son of \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_

accept my above appointment.

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Signature of the Election Agent

Approved

Signature and seal of the Returning Officer.

**DECLARATION OF COUNTING AGENTS**

(To be signed before the Returning Officer)

I/We hereby declare that at the above election we will not do anything forbidden by section 151 of the Sikh Gurdwaras Act, 1925 which I/We have read/has been read over to us

1

2

3

etc

Date\_\_\_\_\_

Signature of Counting Agent(s)

Signed before the

Date\_\_\_\_\_

Assistant Returning Officer/Returning Officer

**FORM VIII-B**

[See rule 50-B (4)]

**Revocation of Appointment of Counting Agent****Election to the Sikh Gurdwara Board**

To

The Returning Officer,  
\_\_\_\_\_

I, \_\_\_\_\_ son of \_\_\_\_\_ a candidate at the election  
of membership of the Board hereby revoke the appointment of \_\_\_\_\_ my  
counting agent

Place\_\_\_\_\_

Date\_\_\_\_\_

Signature of Candidate

[F N 17012/5/2001-IS (D I)]

V K GUPTA, Under Secy

**Foot Note** The principal rules were published by the Government of Punjab, Home Department Notification No 1207 dated 16th July, 1959 and subsequently amended by Government of India, Ministry of Home Affairs by the following Notifications—

No 63 (E) dated 3-2-1978

No 302 (E) dated 30-3-1995

No 282 (E) dated 26-7-1978

No 384 (E) dated 9-5-1995

No 382 (E) dated 26-7-1978

No 379 (E) dated 23-8-1996

No 476 (E) dated 28-9-1978